

अध्ययन सामग्री निर्माण

Dr. SHAKEEL HUSAIN

Head . Dept. of Political Science
Govt. VYT.PG Autonomous College
Durg CG.

shakeelvns27@gmail.com

संयुक्त राष्ट्र संघ और सिविल सोसायटी Consultative status with the Economic and Social Council (ECOSOC)

संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों नागरिक अधिकारों की रक्षा मानवाधिकारों की रक्षा पर्यावरण की रक्षा आदि के संबंध में विश्व के विभिन्न सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ मिलकर सतत रूप से कार्य करती है इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने स्तर पर कुछ आंतरिक व्यवस्थाएं भी विकसित की हैं जिनमें कुछ प्रमुख निम्नवत हैं

कंसल्टेटिव स्टेटस विथ इकोनामिक एंड सोशल काउंसिल ।

यह संयुक्त राष्ट्र संघ का 13 संगठन मानवाधिकार की रक्षा और छोटे शास्त्रों के व्यापार आवागमन पर निगरानी करने के संबंध में तीन स्तरों पर विश्व के विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर कार्य करता है ।

द इंटीग्रेटेड सिविल सोसायटी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम । The Integrated Civil Society Organizations (iCSO) System

इंटीग्रेटेड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम सिविल सोसाइटी संगठनों के लिए सामान्य प्रोफाइल का ऑनलाइन पंजीकरण प्रदान करता है, जिसमें पता, संपर्क, गतिविधियां और बैठक में भागीदारी शामिल है। यह आर्थिक और सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी) के साथ परामर्शी स्थिति के लिए आवेदन प्रक्रिया की सुविधा प्रदान करता है, और मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संगठनों को क्वाड्रेनियल रिपोर्ट प्रस्तुत करने और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों को नामित करने में सहायता करता है।

संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संचार विभाग के साथ सहयोग United Nations. Association with the UN Department of Global Communications

यह वैश्विक स्तर पर विभिन्न सिविल सोसाइटी संगठनों के लिए एक संयोजन प्लेटफार्म के रूप में कार्य करता है । यह विभिन्न सिविल सोसाइटी संगठनों को अन्य आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक संगठनों से जोड़ने और संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न संगठनों से जोड़ने के लिए आवेदन प्रक्रिया आदि के संबंध में एक प्लेटफार्म अवलेबल कराता है तथा एक लिंकेज के रूप में कार्य करता है । 15 साल से अधिक सिविल सोसायटी ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ इस व्यवस्था से जुड़कर सतत रूप से क्रियाशील हैं ।

द यूएन डेमोक्रेसी फंड The UN Democracy fund

द यूएन डेमोक्रेसी फंड UNDEF की स्थापना नागरिक समाज के माध्यम से मानवाधिकारों और लोकतंत्र की रक्षा तथा मानवाधिकार और लोकतंत्र की स्थापना के लिए की गई है इसके लिए यह मानवाधिकार संगठनों को नैतिक साहित्यिक और विशेषज्ञता पूर्ण सहायता प्रदान करता है और विश्व में लोकतांत्रिक करण की प्रक्रिया को तीव्र करने की दिशा में कार्य करता है ।



Dr. SHAKEEL HUSAIN